

पापी के मुख से राम कोणी निकले ,  
केशर ढुल गई गारे में ।  
मिनख जमारो बन्दों एल्यो मत खोई ना  
सुपरथ करले जमारे न ॥

भैंस पद्मनी न गहनों पहनायो ,  
के जाने नोसर हारा ने ।  
पहन कोणी जाने वा तो ओढ़ कोणी जाने  
उम गमादी गोबर गारे में ॥ 1

सोने की थाल में सुरी न परोषि ,  
के जाने जिमन हारा ने ।  
जिम कोणी जाने बातो झूठ कोणी जाने  
हुलड़ हुलढ मर गई जमारे में ॥2

काच के महल में कुतिया सुहाणि ,  
के जानें रंग चौबारे मे ।  
सोया कोणी जाने बातो ओढ़ कोणी जाने  
घुस घुस खो दियो जमारे ने ें ॥3

मानक मोती मूर्खा दीन्हा  
दलबा तो बेठ गया सारा ने ।  
हीरे की पारख जौहरी जाने ,  
के जाने मुख गंवार ने ॥ 4

अमृत नाथ अमर भया जोगी ,  
जार गए काचे पारे ने  
भूरा भजन राम का करले  
हरी मिले दसु द्वारे में ॥5  
पापी के मुख से राम कोणी निकले  
केशर ढुल गई गारे में ।  
मिनख जमारो बन्दों एल्यो मत खोई ना  
सुपरथ करले जमार न ॥